

## **Railways to build washroom in engines on loco pilots' request**

<https://www.livemint.com/news/india/railways-to-build-washroom-in-engines-on-loco-pilots-request-11663531703677.html>

The Indian Railways has decided to construct urinals in the engine units of locomotives after more than 10,000 train pilots have asked the national transporter for them at the earliest. In an internal survey conducted last month, the loco pilots unanimously recommended that the national transporter should construct urinals in the engines as these loco pilots, in an emergency, are forced to leave the locomotives to answer nature's call in the open.

The survey was done after female pilots raised objections to their difficulties in performing their duty without a toilet inside the locomotives. "A survey was conducted over all zonal railways last month, in which 10,191 loco pilots participated. The pilot unanimously recommended provision of urinals in the locomotives," a Railways official said, adding that 382 women pilots had participated in the survey.

The Indian Railways has over 1,000 women pilots.

The pilots, even quoting safety concerns, had expressed discomfort in performing duty without the provision of a toilet for them.

The National Human Rights Commission (NHRC), on 25 April 2016, ordered the Railway Board to install toilets and air conditioners in all locomotives, to which the board had agreed.

To assure NHRC, the Indian Railways also installed water closets in 97 engines as pilot projects, and officials said that Railways will now be finalizing one of the designs from these 97 water closets.

Female Members of the All India Loco Running Staff Association (AILRSA) said that women loco pilots avoided taking their duty and preferred desk jobs due to the absence of toilets, especially during the winter season.

"Issues occur more during winters as women pilots have no washrooms available and are forced to rush to the washrooms in the coaches when the train reaches a station. Fearing such issues, women pilots prefer taking a desk job during extreme winters," a loco pilot said, adding that she was happy that the national transporter was finally constructing urinals.

## **Railways likely to build loos for loco pilots**

<https://www.hindustantimes.com/india-news/railways-likely-to-build-loos-for-loco-pilots-101663525220508-amp.html>

The Indian Railways is planning to install water closets in locos after it was recommended by more than 10,000 loco pilots in an internal survey conducted last month, official privy to developments said.

The loco pilots unanimously recommended that the national transporter should construct water closets in the engines as these loco pilots, in an emergency, are forced to leave the loco. The survey was done after female pilots raised objections to their difficulties in performing their duty in the absence of a water closet inside the loco.

“A survey was conducted of all zonal railways last month, in which 10,191 loco pilots participated. The pilot unanimously recommended provision of water closets in the locomotives,” a Railways official said, adding that 382 women pilots had participated in the survey.

The National Human Rights Commission (NHRC) on April 25, 2016, ordered the Railway Board to install water closets and air conditioners in all locomotives, to which the board had agreed.

To assure NHRC, the IR installed water closets in 97 engines as pilot projects, and officials said that Railways will now be finalising one of the designs from these 97 water closets.

IR has over 1000 women pilots. The pilots, even quoting safety concerns, had expressed discomfort in performing duty without the provision of a water closets for them.

Female members of the All India Loco Running Staff Association (AILRSA) told HT that women loco pilots avoided taking their duty and preferred desk jobs due to the absence of water closets, especially during the winter season.

“Issues occur more during winters as women pilots have no washrooms available and are forced to rush to the washrooms in the coaches when the train reaches a station. Fearing such issues, women pilots prefer taking a desk job during extreme winters,” a loco pilot told HT, adding that she was happy that the national transporter was finally constructing toilets.

## De-notified tribes still face existential crisis

<https://www.dailypioneer.com/2022/columnists/de-notified-tribes-still-face-existential-crisis.html>

In colonial India, through the Criminal Tribes Act of 1871, around 200 tribal communities across India were notified by the colonial government as “criminal” tribes, “addicted to the systematic conduct of non-bailable offences.” Under this Act, the State visited a range of discrimination, stigmatization, and oppression on these communities. The designation of “Criminal Tribes” exacerbated their social and economic marginalisation at a time when their way of life and traditional occupations had come under threat with the spread of modern technology and commercialisation of social relationships.

Five years after British colonial rule in India ended, the Criminal Tribes Act was repealed (on August 31, 1952), and these communities were “de-notified”. Since then, these communities have observed August 31 as ‘Liberation Day’ or ‘Vimukti Diwas’.

However, it is essential to note that repealing the Criminal Tribes Act has not been enough to stop the oppression and stigma faced by the Nomadic Tribes and De-Notified Tribes (NTDNTs). The year the Criminal Tribes Act was repealed by independent India saw the enactment of the Habitual Offenders Act by the Union Government, followed by versions of the same Act in various states. Authorities have routinely used these laws against NTDNTs.

As a result, even after 75 years of India’s Independence and 70 years after their “liberation”, the NTDNT communities are still subjected to discrimination and are associated with criminality. As a result, the NTDNT communities cannot enjoy the fundamental rights enshrined in the Constitution. There have been innumerable cases in which the right to equality before the law (Article 14), the prohibition of discrimination on the grounds of religion, race, caste, sex or place of birth (Article 15), and the right to life and liberty (Article 21) of people belonging to the NTDNT communities have been disregarded.

The socio-economic conditions of NTDNT communities also continue to be poor. They cannot access education, healthcare, livelihoods, housing, social security, participation in political processes and governance. In addition, members of these communities, including women, are subjected to harassment and violence. While several state Governments have established some welfare schemes, their limited purview, weak mandate and inconsistent implementation render them ineffective in easing the plight of NTDNTs.

“There was no rehabilitation plan for us with the Government of India after we were freed from the settlements. The Government should have given us land for cultivation and to build our houses. We were allowed to live in forests without basic amenities,” said Sunita Bhosle, a member of the pardhi community and an activist based in Pune, Maharashtra, engaged with the cause for the last 25 years. She further stated that the socio-economic circumstances of 200 such communities across the country are still deplorable. “They cannot access jobs, housing, social security, healthcare, education,

or political involvement. Additionally, women from these communities experience assault and harassment. We still have to fight for our basic rights through protests and rallies even after 75 years of our country's Independence," she added.

"We all identify with our country's Independence Day on August 15, but we also celebrate August 31 as a liberation day for our communities. Apart from celebration functions, we hold awareness programmes and rallies to highlight our problems, give voice to concerns and press the Government to frame policies and allocate budgets for our rehabilitation, resettlement and livelihood restoration," Sunita added.

Arun Jadhav, a member of Grameen Vikas Kendra, says that the motive of celebrating August 31 as "liberation day" is to organise communities. Grameen Vikas Kendra works with banjara, pardhi, nandiwale and dabri gosawi communities in Ahmednagar, Maharashtra.

Arun explained, "They discuss the identity issues they face daily in the absence of identity cards. They lack access to food security and other social security benefits because they do not own land. Their livelihoods, including their traditional occupations, are constantly under threat. Raj Kumar Bahot, an activist from Panipat, Haryana, said that most NTDNT residents in his district are from the sapera and bawariya communities, who primarily relied on the forest for their subsistence.

"To make a living, the sapera community mostly gathered snakes, trained them to dance, and staged performances in different villages. However, they lost their jobs when the Government forbade such actions in the country," said Raj Kumar.

The bawariya community, which used to rear cattle in the forests, lost their livelihoods after the forests were heavily cut down, said Raj Kumar, adding that mostly they have turned into ragpickers now.

"Both of these communities have become homeless. They are not permitted to settle anywhere. If they establish temporary settlements, they frequently receive notices from courts after cases are filed by powerful villagers," he said.

"The network of organisations are needed to unify our voices to fight for the rights and re-emphasise demands related to basic social security services, entitlements, land rights, rehabilitation and resettlement related issues, education of children, employment and livelihood restoration-related demands," said Bajrang, who also heads Lokhita Samajik Vikas Sanstha in Maharashtra.

He said that while much has been achieved for rights and access to entitlements in various parts of the country, more needs to be done to uplift all the NTDNT communities.

"Against any criminal activity in any part of the country, we become easy targets of the police. We are often booked in fake cases, harassed, and tortured. The angrez (English

colonizers) have gone from our country, but the police in our country are our angrez now. In 2021-22 alone, I have documented six cases of custodial deaths in my district,” said Sunita Bhosle, who has also written a book titled “Vinchavacha Tel (The Oil of the Scorpion)”, highlighting the police harassment of members of the NTDNT communities in Maharashtra.

Arun Jadhav said that the police in training centres still have training about dealing with NTDNT communities using the Habitual Offenders Act.

“I have documented several cases of murder, rape, fake encounters and other abuses and harassment and submitted those before National Human Rights Commission. Therefore, we need to put up a hard struggle to safeguard our rights and ensure protection,” said Arun.

## गैंगरेप के दोषियों को छोड़ना गलत: बिलकिस की आजादी क्यों छिने, रिहाई कैसिल होने तक गुनहगारों के आसपास 4 पुलि...

<https://www.bhaskar.com/db-original/news/why-should-the-freedom-of-bilkis-be-snatched-away-4-policemen-should-be-kept-around-the-culprits-till-the-release-is-canceled-130334132.html>

क्या गुनहगारों ने सच में पश्चाताप किया है? ये सवाल है बिलकिस केस में 11 दोषियों को CBI की एक विशेष अदालत में सजा सुनाने वाले पूर्व जज यूडी साल्वी का। इन दोषियों को 15 अगस्त 2022 को रिहा किया जा चुका है। जश्न मना, मिठाइयां बांटी गईं और अब दोषी मन्नतें पूरी करने गए हैं। उधर बिलकिस और अन्य गवाहों को डर के मारे छुपकर रहना पड़ रहा है।

CBI की चार्जशीट के मुताबिक ये कोई आम केस नहीं था। गैंगरेप के बाद बिलकिस को खुद पुलिस स्टेशन आकर शिकायत दर्ज करानी पड़ी। पुलिस ने बिलकिस को आरोपियों का नाम न लेने के लिए धमकाया, लेकिन उन्होंने आरोपियों का नाम बार-बार, हर बार लिया। इसके बाद पुलिस ने बिलकिस को 3 दिन थाने में रखा।

घटनास्थल पर उनके घरवालों के शवों की पहचान के लिए बिलकिस की जगह किसी और को ले जाया गया, जिसने शिनाख्त नहीं की। 14 में से 7 शव ही गायब हो गए। डॉक्टरों ने लाशों और बिलकिस से गैंगरेप की जांच से जुड़े सैंपल्स नहीं लिए। शवों को जल्दी सड़ाने के लिए नमक की थैलियों के साथ दफनाया गया था।

CPM नेता सुभाषिणी अली, सामाजिक कार्यकर्ता रूपरेखा वर्मा, रेवती लाल और तृणमूल कांग्रेस की नेता महुआ मोइत्रा ने गुजरात सरकार के इस आदेश को रद्द करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है।

25 अगस्त को तत्कालीन चीफ जस्टिस एन वी रमना, जस्टिस अजय रस्तोगी और विक्रम नाथ की बेंच ने इस पर नोटिस जारी किया और गुजरात सरकार से 2 हफ्ते के भीतर जवाब मांगा। इसके बाद 9 सितंबर को कोर्ट ने सुनवाई 3 हफ्ते के लिए टाल दी।

बिलकिस का केस लड़ने वाली एडवोकेट शोभा गुप्ता बताती हैं- एक प्रेग्नेंट लेडी अगर गिर जाए तो हम डर जाते हैं, लेकिन यहां तो उसने मल्टीपल रेप झेले। अपनी मां, दो बहनों का गैंगरेप होते देखा, फिर हत्या भी देखी। अपनी बच्ची को मरते देखा। बिलकिस के जिंदा रहने का मतलब वहां दैवीय दखल (डिवाइन इंटरवेंशन) का होना था। बिलकिस को जिंदा रहना ही था।

पढ़िए एडवोकेट शोभा गुप्ता से दैनिक भास्कर की विशेष बातचीत...

सवाल- बिलकिस केस के 11 दोषियों की रिहाई का इतना विरोध क्यों?

जवाब- माफी इतनी आसानी से मिलती नहीं, जितनी आसानी से इस केस में मिल गई। फिर केस अगर रेयर ऑफ रेयरेस्ट हो, तो माफी का कोई ग्राउंड ही नहीं बनता। बिलकिस के केस में तो रेयरिटी का तूफान है। 5 महीने की प्रेग्नेंट बिलकिस के साथ मल्टीपल गैंगरेप। मां, दो बहनों का गैंगरेप, उनकी हत्या। ढाई साल की बेटी को उनके सामने पत्थर पर पटककर मार दिया। इसमें तो हरेक फैक्ट रेयर है।

मैंने सुना कमेटी के एक मेंबर ने कहा कि 14 साल पूरे हो चुके थे और इन दोषियों का जेल में व्यवहार बहुत अच्छा था। इसलिए इन्हें रिहा कर दिया गया। माफी की अपील के लिए ये दोनों मिनिमम ग्राउंड है। कमेटी मेंबर को पता नहीं क्यों लगा कि ये मिनिमम ही मैक्सिमम है। रिहाई से पहले एक इम्पैक्ट रिपोर्ट बनती है। इसमें चार ग्राउंड का मूल्यांकन होता है।

पहला- क्राइम का नेचर क्या इस लायक है कि दोषी रिहा हों।

दूसरा - सोसाइटी पर इनकी रिहाई का क्या असर होगा?

तीसरा- पीड़ित पर क्या असर होगा?

चौथा- इनका जेल में व्यवहार कैसा था?

हमने इस असेसमेंट रिपोर्ट को पाने के लिए RTI डाली है। हमारी जहां तक पहुंच है, हमें तो इस रिपोर्ट के बारे में अब तक कोई जानकारी नहीं मिली।

रिहाई के तीसरे आधार का मूल्यांकन बिना पीड़ित को नोटिस भेजे तो हो ही नहीं सकता। कानूनन बिलकिस के पास एक नोटिस आना चाहिए था। बिलकिस को तो तब पता चला, जब मीडिया में दोषियों के स्वागत की खबरें आईं।

सवाल- अपराध अगर इतना रेयर था तो फिर मौत की सजा क्यों नहीं मिली?

जवाब- हमने डेथ पेनल्टी की अपील की थी। यह डेथ पेनल्टी का सिंपल केस था। कोर्ट अपराध के नेचर की रेयरिटी का मूल्यांकन करने के बाद सजा तय करती है। क्या इस केस में कोई भी तथ्य ऐसा था, जिसे रेयर की श्रेणी से नीचे रखा जा सके।

हालांकि कोर्ट ने लिबरल रवैया अपनाते हुए आजीवन कारावास की सजा दी। काश कि कोर्ट कम से कम उस वक्त सजा के साथ यह लिखवा देती- आजीवन कारावास बिना किसी माफी के। इससे तो किसी को भी लगेगा कि इस तरह का अपराध करो और 14 साल के गोल्डन नंबर को टच करो और बाहर आ जाओ।

सवाल- उस वक्त आप लोगों ने इस सजा के खिलाफ अपील क्यों नहीं की?

जवाब- बिलकिस उस कोर्ट के फैसले के खिलाफ जाकर मौत की सजा की अपील कर सकती थीं। इस पर हमने बहुत बात की। वह लोग भी इस बहस का हिस्सा थे, जो बिलकिस की लगातार मदद कर रहे थे। हमने तय किया कि बिलकिस इतने साल से यहां से वहां भाग रही हैं। अब उन्हें थोड़ा सुकून मिलना चाहिए, ताकि वह नई जिंदगी शुरू कर सकें।

बिलकिस को मदद करने वाले लोग जानते थे कि हर हफ्ते वह लगातार एक जगह से दूसरी जगह भाग रही हैं। उनका एंटी डिप्रेशन का इलाज भी चल रहा है। सबने तय किया कि चलो कम से कम दोषी अब पूरी जिंदगी जेल में तो रहेंगे। अब बिलकिस को अपनी जिंदगी आगे बढ़ानी चाहिए और नॉर्मल जीवन में लौटना चाहिए।

सवाल- केस में थोड़ा पीछे जाएं, पुलिस ने इस मामले में 2002 में ही क्लोजर रिपोर्ट दे दी थी, तब आधार क्या थे?

जवाब- दरअसल पुलिस के पास दो कम्प्लेंट आई थीं। एक के मुताबिक दो जीप में भरकर 20-25 लोग हथियार लेकर गांव आए थे। जान बचाकर भागने में गांव में दो ग्रुप बन गए। एक ग्रुप कहीं और चला गया और दूसरा ग्रुप बिलकिस के साथ जंगल में आ गया।

एक दूसरी कम्प्लेंट जनरेट हुई, जिसमें कहा गया कि 500-600 लोग गांव में आए और फिर यह सब हुआ। तो इन दोनों में संदेह यह पैदा हुआ कि गांव में इतनी संकरी गली में आखिर 500-600 लोग आए कैसे। इतनी भीड़ में बिलकिस ने लोगों को कैसे पहचान लिया।

इन्हीं दोनों आधार पर पुलिस ने क्लोजर रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को सौंप दी। मजिस्ट्रेट ने भी बिना बिलकिस को सूचना दिए केस क्लोज कर दिया।

सवाल- केस दोबारा खुलने का आधार क्या बना?

जवाब- देखिए, जब क्राइम बहुत सीरियस होता है, तो वह खुद अपने फुट प्रिंट छोड़ता जाता है। इस केस में भी वही हुआ। हमारे पास बहुत फैक्ट्स थे। जो लोग बिलकिस से मिले, उन्होंने उनके बयान को बार-बार नोट किया। बिलकिस बार-बार जो बताती थीं, वह सब कुछ डॉक्यूमेंट में



तब्दील हो गया। बिलकिस बार-बार दोषियों के नाम ले रही थीं। बयान में बार-बार एक जैसी बातें दर्ज होती गईं। इसका पूरा पक्का डॉक्यूमेंट बन गया।

बिलकिस ने आरोपियों के नाम लेकर उन पर रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उन्होंने खुलकर अपराधियों के नाम लिए। उधर, पुलिस ने क्लोजर रिपोर्ट में कहा कि आरोपी मिल नहीं रहे, इसलिए यह केस हम बंद करते हैं। यह नहीं कहा कि अपराध नहीं हुआ, कहा कि आरोपी मिल नहीं रहे।

बिलकिस को रिपोर्ट क्लोज करने का कोई नोटिस नहीं दिया गया। यह कानूनन गलत था। इसलिए हमारे पास इस केस को खुलवाने का मजबूत आधार था। दूसरी तरफ बिलकिस के बयान कई अथॉरिटी के सामने दर्ज हुए। घटना के बाद एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बिलकिस के पास गई थीं। उन्होंने केस से जुड़े सारे फैक्ट नोट कर लिए थे।

वे बिलकिस की कहानी जानकर इतना डिस्टर्ब हुईं कि उन्होंने उसी वक्त हायर अथॉरिटी को यह डॉक्यूमेंट फॉरवर्ड कर दिया। इसके अलावा NHRC, कई गैर सरकारी संगठन और सबसे अहम उस कैंप में दर्ज बयान सबसे बड़ा सबूत बना, जहां घटना के बाद बिलकिस को लाया गया था। हमारे पास फैक्ट इतने मजबूत थे कि केस दोबारा खुलवाने में ज्यादा दिक्कत नहीं आई।

सवाल- इस केस में CBI की एंट्री कैसे हुई?

जवाब- हमारे पास फैक्ट्स तो बहुत मजबूत थे। बस जरूरत एक फ्रेश इन्क्वायरी की थी। तो अब सवाल उठता है कि इन्क्वायरी कौन करे? वो तो नहीं कर सकते, जिन्होंने ये मामला क्लोज करा दिया। गुजरात स्टेट के जो वकील इस मामले में शामिल थे, उन्होंने भी कहा कि अगर केस CBI को सौंप दें तो ठीक रहेगा। हम तो यही चाहते थे। केस का CBI के पास जाना ही हमारी पहली सफलता थी।

CBI ने भी कमाल का काम किया। 2003 में सीबीआई इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर हो गया। CBI ने इतनी डीटेल्ड इन्क्वायरी की थी कि वो वहां तक पहुंच गई, जहां पर शवों को छिपा दिया गया था।

डॉक्टर्स ने गलत पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट बनाई। जबकि शुरुआत में जो फोटो क्लिक हुईं, उसमें भी उन शवों के लोअर क्लॉथ नीचे थे। सेक्शुअल असॉल्ट साफ दिख रहा था। डॉक्टर के लिए तो यह पहला काम होना चाहिए कि चेक करें कि सेक्शुअल असॉल्ट हुआ या नहीं। बिलकिस ने अपने स्टेटमेंट में साफ कहा कि उस पर स्टेटमेंट वापस लेने का दबाव बनाया गया।

पुलिस भी दबाव बनाने वालों में शामिल थी। मैं यह नहीं कहती कि पूरा सिस्टम इसमें शामिल था, लेकिन कुछ लोग तो इन्वॉल्व थे ही। इसलिए केस को गुजरात से बाहर ले जाने का मन हमने बना लिया था। मेरे खयाल से CBI के हाथ में यह केस जाना और गुजरात से बॉम्बे हाईकोर्ट में यह केस ट्रांसफर होना हमारी मेजर विकट्री थी।

सवाल- अब यह केस कैसे आगे बढ़ेगा?

जवाब- हमने बिलकिस केस के सभी स्टैकहोल्डर से अपील की है कि वह इस माफी योजना के तहत हुई रिहाई को चुनौती दें। सेंट्रल गवर्नमेंट, CBI इस रिहाई को चुनौती दे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो बिलकिस को जाना पड़ेगा। हम एक बार इस रिहाई से जुड़े सारे डॉक्यूमेंट इकट्ठा कर लें, उसके बाद अगर कोई इस फैसले को चैलेंज नहीं करता है तो बिलकिस पिटीशन डालेंगी।

सवाल- जब तक माफी वापस नहीं होती, तब तक क्या बिलकिस को सुरक्षा नहीं मिलनी चाहिए?

जवाब- अभी पंजाब में किसी ने कहा कि बिलकिस को यहां भेज दीजिए, हम सुरक्षा देंगे। कई लोग कह रहे हैं कि उसे सुरक्षा दे दो, लेकिन मेरा सवाल है कि बिलकिस कहीं क्यों जाए? वह तो 17-18 साल से एक से दूसरी जगह घूम ही रही हैं। बिलकिस की आजादी क्यों छीनी जाए?

बिलकिस को प्रोटेक्शन देना है तो एक सिंपल सॉल्यूशन है। जब तक गुनहगारों की रिहाई कैंसिल नहीं होती, तब तक क्यों न उनके चारों तरफ 4-4 पुलिस वाले खड़े कर दिए जाएं। इससे वे लोग बिलकिस को नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। बिलकिस की आजादी क्यों छीनी जाए। ये अजीब है कि गुनहगार आजाद रहें, इसलिए बिलकिस की आजादी छीन ली जाए।

बिलकिस बानो केस से जुड़ी ये तीन एक्सक्लूसिव स्टोरी भी पढ़िए...

1. दंगाइयों के हमले के इकलौते चश्मदीद सद्दाम ने बताया- उस दिन क्या हुआ था

ये 3 मार्च 2002, संडे का दिन था। हमें कुछ लोग हमारी तरफ आते दिखे। उनके हाथ में तलवार, हंसिया, कुल्हाड़ी और लोहे के पाइप थे। वह आकर मारने-काटने लगे। मेरी अम्मी हाथ पकड़कर मुझे दूसरी तरफ लेकर भागीं। तभी किसी ने मुझे अम्मी से छुड़ाकर एक गड्ढे में फेंक दिया। मेरे ऊपर एक पत्थर रख दिया। इसके बाद मैं बेहोश हो गया। तब 7 साल के रहे सद्दाम को ये सब याद है। इस बारे में बताते हुए सद्दाम उसी बच्चे की तरह नजर आते हैं, जिसके सामने उसकी अम्मी की लाश पड़ी है।